

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2

PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, फरवरी 8, 1973/माघ 19, 1894

No. 3] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 8, 1973/MAGHA 19, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 8th February 1973

No. 4/3/73-Public I.—The President, on the advice of the Prime Minister, has been pleased to make the following appointments with effect from the forenoon of 5th February, 1973:—

CABINET MINISTERS

1. Shri Bhola Paswan Shastri.
2. Shri Kotha Raghu Ramiah.
3. Shri Dev Kanta Borooah.
4. Shri Lalit Narayan Mishra.

MINISTERS OF STATE

1. Shri Mansinhji Bhasaheb Rana.
2. Shri Surendra Pal Singh.

DEPUTY MINISTERS

1. Shri Arvind Netam.
2. Shri Janaki Ballav Patnalk.

3. Shri Pranab Kumar Mukherjee.
4. Shri Sukhdev Prasad.
5. Shri Kondajji Basappa.
6. Shri G. Venkatswamy.

पूर मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1973

सं० 4/3/73-पब्लिक I.—राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री की सलाह से, तारीख 5 फरवरी, 1973 के पूर्वाह्न से निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :—

मंत्रिमंडल के मंत्री

1. श्री भोला पासवान शास्त्री
2. श्री कोटा रघु रमैया
3. श्री देवकान्त बरुवा
4. श्री ललित नारायण मिश्र

राज्य मंत्री

1. श्री मानसिंहजी भासाहेब राणा
2. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह

उप-राज्य मंत्री

1. श्री अरविन्द नेतम
2. श्री जानकी बल्लव पटनायक
3. श्री प्रणव कुमार मुखर्जी
4. श्री सुखदेव प्रसाद
5. श्री कोण्डाजी बासप्पा
6. श्री जी वेंकटस्वामी

No. 4/3/73-Pub. I.—The President, on the advice of the Prime Minister, has been pleased to appoint Shri Ziaur Rehman Ansari and Shri Subodh Chandra Hansa to be Deputy Ministers with effect from 12.00 noon of 6th February, 1973.

GOVIND NARAIN, Sec

सं० 4/3/73-पब्लिक I.—राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री की सलाह से, श्री जियाउर रहमान अन्सारी और श्री सुबोध चन्द्र हंसदा की 6 फरवरी, 1973 के 12 बजे मध्याह्न से उपमंत्रियों रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं :

गोविन्द नारायण, सचिव